

प्रेस नोट दिनांक-19.06.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने वाँछित 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया।

(1). श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 24/2021 धारा 376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के वाँछित बाल अपचारी अभियुक्त दउवा यादव उर्फ सुखदायक पुत्र भोला उर्फ भोली यादव निवासी छेरिया खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी टीम करने वाली टीम:-

1. श्री रमेश चंद प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुंडी
2. आरक्षी अमित सिंह
3. आरक्षी योगेंद्र यादव
4. महिला आरक्षी दीपिका सिंह

(ii). उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 122/2021 धारा 354/504/506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त अमन पाण्डेय पुत्र रमाशंकर निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर
2. आरक्षी पंकज राय

(2). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 19.06.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा बस स्टैंड में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में जवाहर नगर, सुभाष नगर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चकरेही चौराहा, बनकट, नई दुनिया में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ बाजार रोड, बस स्टैण्ड में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(3). आज दिनांक-19.06.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ की उपस्थिति में थाना मऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा महिला हेल्प डेस्क को चेक कर डियूटी पर तैनात महिला आरक्षी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। महोदय द्वारा निर्माणाधीन प्रभारी निरीक्षक कार्यालय, बैरिक का निरीक्षण किया। महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्लूट आरक्षियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी एवं लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत कहीं भी जलभराव न हो, थाना परिसर, छतों व कूलरों की नियमित साफ-सफाई कराये जाने हेतु निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी, निरीक्षक अपराध श्री ब्रजेश कुमार यादव, पीआरओ श्री दिनेश सिंह, महिला रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी उ0नि0 श्रीमती रीता मौर्या एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।